

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	नई दिल्ली, शनिवार, जून 28—जुलाई 4, 2014 (आषाढ़ 7, 1936)
No. 26]	NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28—JULY 4, 2014 (ASADHA 7, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 26 मई 2014

सं.ए.22012/1/2014-पीएमई—प्रधान मंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त श्री टी.के.ए. नायर, आईएएस (पीबी:1963) (सेवानिवृत्त) का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 26 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं.ए.22012/1/2014-पीएमई—सह-समाप्य आधार पर प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त श्री पुलक चटर्जी, आईएएस (यूपी:74) (सेवानिवृत्त) का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 26 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं.ए.22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त श्री शिवशंकर मेनन, आईएएस (सेवानिवृत्त) का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 26 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं.ए.22017/2/2014-पीएमई—प्रधान मंत्री कार्यालय में विशेष दूत के रूप में नियुक्त श्री राकेश सूद, आईएफएस (सेवानिवृत्त) का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 26 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं.ए.22017/2/2014-पीएमई—प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में सह-समाप्य आधार पर कम्युनिकेशन्स सलाहकार के रूप में नियुक्त श्री पंकज पचौरी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 26 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 27 मई 2014

संख्या ए. 22012/1/2014-पीएमई—कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री शकील पी. अहमद, आईएएस (एएम:1995) ने दिनांक 27 मई, 2014 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 28 मई 2014

संख्या ए.22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, श्री नृपेन्द्र मिश्र, आईएएस (सेवानिवृत्त) (यूपी:67) को अनुमोदित मानक निबंधन एवं शर्तों पर दिनांक 28 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री मिश्र की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल के सह-समाप्य आधार पर अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2014

संख्या ए.22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, श्री अजीत डोभाल, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को अनुमोदित मानक निबंधन एवं शर्तों पर दिनांक 30 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री डोभाल की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल के सह-समाप्य तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 3 जून 2014

संख्या ए.22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, श्री ए.के.शर्मा, आईएएस (गुजरात:88), को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 3 जून, 2014 (पूर्वाह्न) से केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति के सामान्य कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 231, दिनांक 16 जून 2014

सं. 3/1(1)2014-।—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
1	बालगोपाल एस.के.	28.10.2013
2	चोहान नेहा संजय	28.10.2013
3	गीतु लिस्बा जेकब	28.10.2013

1	2	3
4	गीतु एन.	28.10.2013
5	जाना रवि किरण	28.10.2013
6	कृष्णा जी. नंबूतिरी	28.10.2013
7	निलाद्री मैत्रा	28.10.2013
8	अर्चना रवींद्रन	28.10.2013
9	अंजली लाल	28.10.2013
10	अभिषेक जे. के.	28.10.2013
11	अटल कृष्ण खटुआ	28.10.2013
12	समेल कुणाल पराग	28.10.2013
13	अर्जुन जी नंबूदिरी	20.11.2013
14	नेल्सण डेविस पल्लिपुरम	25.11.2013
15	अज़ादहुस्सैन जे.	25.11.2013
16	एस. मोहनराज	25.11.2013
17	गिरीश एन. नंबूदिरी	27.11.2013
18	अजयकुमार एन. बी.	09.12.2013

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)2014-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	नियुक्ति की तिथि
1	दसरी रवितेजा	28.10.2013
2	आकाश यालागाच	28.10.2013
3	ए. रजिल रमेश	28.10.2013
4	राजेश शंकर के.	28.10.2013
5	पी. आजिया निजिन	28.10.2013
6	जयंत कुमार	28.10.2013
7	जयकृष्णन टी.एस.	28.10.2013
8	माधव नकानी	28.10.2013

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं.3/1(1)/2014-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्रीमती संध्या आर.एस., व. सहायक को क्रय एवं भण्डार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 09.01.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2014-1—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री प्रवीण कुमार बी., वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 27.12.2013 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2014-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री राहुल मिश्रा, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 29.11.2013 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं.3/1(2)2014-I—श्री सी.एन. मुकुंदन ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनन्तपुरम में व. प्रधान, लेखा/आं. वि.स. (सा.) का कार्यभार दिनांक 30.11.2013 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)2014-I—अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर ने अपने अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है:—

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पदनाम	त्यागपत्र की तिथि
1.	पी.ओ. बालचंद्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एच.	30.11.2013
2.	जे. जोसफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर - जी.	30.11.2013
3.	चंद्रन के.एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.एफ.	30.11.2013
4.	बी. कुसुमकुमारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.एफ.	30.11.2013
5.	डॉ. ओ. विजयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.एफ.	30.11.2013
6.	कुरियाला एन.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.ई.	30.11.2013
7.	रवि के.आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.ई.	30.11.2013
8.	आर. विजयकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.डी.	31.10.2013
9.	ए.डी. एलसी बेबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.डी.	31.12.2013
10.	के.वी. अशोकन	वैज्ञानिक/इंजीनियर - एस.डी.	31.10.2013

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं.3/1(2)2014-I—जी. सुरेश बाबु ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, वलियामला, तिरुवनन्तपुरम में प्रशासन अधिकारी पद का कार्यभार दिनांक 30.11.2013 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मई 2014

सं. ए-19/जी-ए/109.—श्री भारत भूषण गर्ग, आईआरएस: 2004, संयुक्त निदेशक, जिनकी सेवाएं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 24.07.2012 के पत्र सं. ए-29011/पी एफ/04020/2012-एडी VI के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के हवाले रखी गई थी, को एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय में संयुक्त निदेशक के पद से कार्यमुक्त किया जाता है ताकि वे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 16.05.2014 की संदर्भ सं. ए-12018/1/2012-एडी VI के द्वारा की गई उनकी नई तैनाती पर नए सीसीए यानि उ.प्र. (पश्चिम) को रिपोर्ट कर सकें।

बी.सी. पात्रा, अवर सचिव

दिनांक 2 जून 2014

सं. ए-19/जी-ए/115—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 20.05.2014 के पत्र सं. ए-29011/पी एफ/93076/2014-ए डी VI के द्वारा जारी आदेश सं. 72/2014 के अनुसरण में तथा आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय से दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. पी-328/कार्यमुक्ति/ पी आर सी सी आई टी /2014-15/2253 के जरिए जारी आदेश सं. 24/ जी ओ 2014-15 द्वारा कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप, श्री एन.सी.स्वैन, आईआरएस (आईटी: 93076) को एतद्वारा दिनांक 21.05.2014 (अपराह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन बैंड-4 [37400-67000], तथा रु. 8700/- के संगत ग्रेड वेतन में 20.05.2017 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आयोग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं. ए-38012/3/2013-प्रशा.-I(वि.वि.)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव, श्री विनोद कुमार ऐरी 30 अप्रैल, 2014 के अपराह्न से सरकारी से सेवानिवृत्ता हो रहे हैं।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 1 मई 2014

सं. ए. 12026/4/2006-प्रशा.-I(वि.वि.)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 3/1/2011 सी.एस.आई. (डी), दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के अनुसरण में श्री जोस थोमस, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उप सचिव, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को 1 मई, 2014 की पूर्वाह्न से अर्थात् उक्त आदेश में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यभार ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर उक्त विभाग में रूपए 37400-67000/- के वेतन बैंड 4 और रूपए 8700/- के ग्रेड वेतन में सी.एस.एस. के निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2014

सं. ए-12034/01/2013-प्रशा.IV(वि.का.)—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) के वैयक्तिक अनुभाग में कार्यरत श्री अरुण कुमार नवानी, अपर निजी सचिव दिनांक 26.05.2014 (अपराह्न) को अपने पदभार से मुक्त हो गए हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मई 2014

सं. आई-11014/14/2013-आई.पी.एस.-4—केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु की सरकार सरकारों की सहमति से, एतद्वारा श्री जी शशांक साई, आई.पी.एस. (एम.एच.: 2011) का विवाह सुश्री आरती मणिकावासंगम, आई.ए.एस. (टी.एन.: 2012) के साथ हो जाने के आधार पर, उन्हें महाराष्ट्र के आई.पी.एस. संवर्ग से तमिलनाडु के आई.पी.एस. संवर्ग में स्थानान्तरित करती है।

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

दिनांक 9 जून 2014

सं. आई-1-12015/01/2012-आई.पी.एस.-4—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल सेवा परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में आवंटित अभ्यर्थी को निम्नलिखित संवर्ग आवंटित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम	रैंक संख्या	गृह राज्य	आवंटित संवर्ग
सुश्री डी. सुदारविजी	343	तमिलनाडु	पंजाब

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2014

सं. 24010/85/1999-आईपीएस-II—राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि केरल संवर्ग (के एल :1993) के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य श्री विनोद थॉमस को अखिल भारतीय पुलिस सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के अनुसार, दिनांक 16.10.2006 से भारतीय पुलिस सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ माना जाता है।

मलय सान्याल, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 मई 2014

सं. 14034/06/2011-राभा(प्रशि) —राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री संतोष कुमार को सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर पी.बी-3 रुपये 15600-39100/- ग्रेड वेतन 5400/- रुपये के वेतनमान में, दिनांक 18 फरवरी, 2014 (पूर्वाहन) से नियुक्त करते हैं।

सूरज भान, निदेशक

सं. 14034/06/2011-राभा(प्रशि) —राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री अरविंद कुमार को सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर पी.बी-3 रुपये 15600-39100/- ग्रेड वेतन 5400/- रुपये के वेतनमान में, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 (पूर्वाहन) से नियुक्त करते हैं।

सूरज भान, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2014

सं. ए-32014/1/2014-संवर्ग (प्रशा. IV) —कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/10/2013 - सी.एस. I (एस), के अनुसार, वर्ष 2009, 2010, 2011 की चयन सूचियों में वरिष्ठता के आधार पर उनके नामों को शामिल करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में निम्नलिखित कार्मिकों को चयन सूची वर्षों के लिए अनुभाग अधिकारी

(ग्रुप बी राजपत्रित) के रूप में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उनके नामों के सम्मुख दी गई तारीख से ग्रेड वेतन 4800/- रु. के साथ वेतन बैंड 2 में नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	डी. के. पाण्डेय	2009	विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदित तारीख अर्थात् 02.01.2014
2.	प्रवीण पाल सिंह	2009	
3.	ऋषि पाल	2009	
4.	अनिता बिलंग	2009	
5.	उषा गिल	2011	
6.	सुशीला	2011	

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2014-संवर्ग (प्रशा. IV) —कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/10/2013-सी.एस. I (एस), के अनुसार राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में वरिष्ठता के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को अनुभाग अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) के रूप में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उनके नामों के सम्मुख दी गई तारीख से ग्रेड वेतन 4800/- रु. के साथ वेतन बैंड 2 में नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति की तारीख
1.	के. सी. बीना नायर	04.03.2014
2.	रवीन्द्र कुमार शर्मा	04.03.2014
3.	पी. एस. पद्मा कुमारन नायर	04.03.2014
4.	राजेन्द्र प्रसाद	04.03.2014
5.	तापस डे	04.03.2014
6.	शशी लखेड़ा	30.04.2014
7.	डी. डी. निमजे	04.03.2014
8.	वी. एस. बारा	04.03.2014

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2014

सं. 14012/27/2013-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2010 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई तिथि (तिथियों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायी करने की तारीख
1	वासिरेड्डी विजया ज्योत्सना	कर्नाटक	30.08.2012
2	कनगा वल्लीम	कर्नाटक	30.08.2012
3	सुजीत कुमार	गुजरात	19.05.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2014

संख्या-14015/15/2013-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के मणिपुर खंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा 13.12.2013 के विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 15.04.2014 को अनुमोदित विनियम 7(2) के अंतर्गत पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित नामों वाली मणिपुर राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को 2012 की चयन सूची हेतु अधिसूचित करते हैं :-

वर्ष 2012 की चयन सूची (01.01.2012 से 31.12.2012 के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म-तिथि
1.	श्रीमती टी. एच. चित्रा देवी	09.03.1973
2.	श्रीमती हओबम रोसिता	10.03.1973

2. माननीय गुवाहाटी न्यायालय के समक्ष श्री एम. लक्ष्मी कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सं. 494/2002 के परिणाम सिविल निर्णय सं. 201/1997 पर चयन समिति की सिफारिशें निर्भर हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

संख्या-14015/15/2013-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2012 की रिक्तियों हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर मणिपुर राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) के नियम 5(1) के अंतर्गत मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग आबंटित करते हैं:—

वर्ष 2012 की चयन सूची (01.01.2012 से 31.12.2012 के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	श्रीमती टी. एच. चित्रा देवी
2.	श्रीमती हओबम रोसिता

2. माननीय गुवाहाटी न्यायालय के समक्ष श्री एम. लक्ष्मी कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सं. 494/2002 के परिणाम सिविल निर्णय सं. 201/1997 पर चयन समिति की सिफारिशें निर्भर हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2014

संख्या डीIII/460/सीएफ-66/2013—भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में थाईलैंड के प्रधान कौंसल के रूप में श्री सोमसक् त्रियमजन्गगरुन की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री सोमसक् त्रियमजन्गगरुन के कौंसली क्षेत्राधिकार में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य होंगे, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2014

संख्या 08/25/2014-डीआरटी—केन्द्रीय सरकार, श्री डी. महादेवन को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पे-बैंड 3, 15,600-39,100 रुपए + क्रमशः 6600/— रुपए के ग्रेड वेतन में डीआरटी, मदुरै में सहायक पंजीयक के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करती है:—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती	पद	तैनाती का स्थान (डीआरटी)	प्रतिनियुक्ति की अवधि	
				से (ता./म./वर्ष)	तक (ता./म./वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री डी. महादेवन	सहायक पंजीयक	डीआरटी, मदुरै	09.10.2013 (पूर्वाहन)	08.10.2016 (अपराहन)

राजीव शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2014

संख्या 7/8/2013-डीआरटी—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री आर. रविन्द्र बोस को दिनांक 06.06.2014 (पूर्वाहन) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, चेन्नै के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2014

सं.ए-12026/2/2013-एड-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित उप सचिव श्री एन. राधाकृष्णन को 30.04.2014 (पूर्वाहन) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 37,400-67,000/- रु. के वेतन बैंड-4+8700/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री एन. राधाकृष्णन की यह तदर्थ पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस.I(डी) के अनुसार शासित की जाएगी।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2014

सं.पीएफजी(410)/81-प्रशा-II—भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों में अपने नाम के आगे उल्लिखित दिनांक से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम(श्री/श्रीमती)	पदनाम व कार्यालय	से प्रभावी
1.	बी.एन.हरीश	क्षेत्रीय निदेशालय (द.पू.क्ष.), हैदराबाद कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक	01.04.2014(अपराहन)
2.	श्रीमती अनिता क्लेर	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कार्यालय में उप निदेशक	16.01.2014 (पूर्वाहन)
3.	संजय कुमार वर्मा	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कार्यालय में सहायक निदेशक	03.02.2014(अपराहन)
4.	श्रीमती अंशु टंडन	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कार्यालय में सहायक निदेशक	26.02.2013 (पूर्वाहन)

राकेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2014

सं. ए-32011/1/2014-प्रशासन-II—राष्ट्रपति, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ समयमान अधिकारियों को उनकी पदोन्नति होने पर उनके नामों के सामने दी गई तारीख से वरिष्ठ समयमान अधिकारियों के रूप में (पे-बैंड-3, 15,600-39,100 रुपए + ग्रेड पे 6600/- रुपए) नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम और पदनाम	प्रभावी तारीख
1.	श्री पुनीत कुमार दुग्गल, उप निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय	09.04.2014 (पूर्वाहन)
2.	श्री सुधीर कपूर, उप शासकीय समापक, शासकीय समापक कार्यालय, दिल्ली	09.04.2014 (पूर्वाहन)
3.	सुश्री गीता महालक्ष्मी के, उप कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, बंगलौर	10.04.2014 (पूर्वाहन)

राकेश कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2014

सं.18011/12/2014-नमक—राष्ट्रपति, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर में भारतीय नमक सेवा संवर्ग के नमक अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री ए. वी. सत्यनारायण को दिनांक 16.05.2014 के पूर्वाहन से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस.एन. मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110107, दिनांक 10 जून 2014

सं.ए-22012/2/2014-स्था.। — राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) गृह मंत्रालय के संवर्ग की नियमित निजी सहायक, सुश्री अनुपमा पी को सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड [पे बैंड पीबी-3, 15600-39100 रुपए+ग्रेड पे 6600/- रुपए] की चयन सूची-2012 में उनका नाम शामिल होने पर उन्हें 22 मई, 2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल.के.शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2014

सं.ए-23011/15/2013-एच.आर.।। — राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा.सं.6/2/2013-सीएस-। (एस)-II के अनुसरण में तथा डीओपीटी के ऊपर उल्लिखित का.जा.में निहित शर्तों के अध्याधीन श्री नरेश कुमार को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 25.02.2014 (अपराह्न) से 4800/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे बैंड-2 (र.9300-34800/-) में वर्ष 2010 की प्रवर सूची में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के नतीजों और किन्हीं भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य किसी आदेश के अधीन होगी:

- श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए सं. 4135/2012, एम.ए सं. 3477/2012.

- ii श्री एम.आर.मीना एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली के दायर ओ.ए.सं. 4082/2012, एम.ए.सं.3448/2012
- III. श्री शांति लाल बौरासी एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4141/2012.
- IV श्री सौरांशु सिन्हा एवं अन्य बनाम यूओपीआई एवं अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर ओ.ए.सं. 2735/2013.

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं.ए-23011/15/2013-एच.आर.॥ राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा.सं.6/2/2013-सीएस-1 (एस)-II के अनुसरण में तथा डीओपीटी के ऊपर उल्लिखित का.जा.में निहित शर्तों के अध्यक्ष श्री पी. के. जैन को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 25.02.2014 (अपराह्न) से 4800/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे बैंड-2 (रु.9300-34800/-) में वर्ष 2010 की प्रवर सूची में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के नतीजों और किन्हीं भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य किसी आदेश के अधीन होगी:

- i. श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4135/2012, एम.ए.सं. 3477/2012.
- ii श्री एम.आर.मीना एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली के दायर ओ.ए.सं. 4082/2012, एम.ए.सं.3448/2012
- III. श्री शांति लाल बौरासी एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4141/2012.
- IV श्री सौरांशु सिन्हा एवं अन्य बनाम यूओपीआई एवं अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर ओ.ए.सं. 2735/2013.

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं.ए-23011/15/2013-एच.आर.॥ —राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा.सं.6/2/2013-सीएस-1 (एस)-I के अनुसरण में तथा डीओपीटी के ऊपर उल्लिखित का.जा.में निहित शर्तों के अध्यक्ष श्री एम. त्रिपाठी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 25.02.2014 (अपराह्न) से 4800/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे बैंड-2 (रु.9300-34800/-) में वर्ष 2009 की प्रवर सूची में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के नतीजों और किन्हीं भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य किसी आदेश के अनुसार होगी:

- i. श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4135/2012, एम.ए.सं. 3477/2012.
- ii श्री एम.आर.मीना एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली के दायर ओ.ए.सं. 4082/2012, एम.ए.सं.3448/2012
- III. श्री शांति लाल बौरासी एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4141/2012.
- IV श्री सौरांशु सिन्हा एवं अन्य बनाम यूओपीआई एवं अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर ओ.ए.सं. 2735/2013.

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं.ए-23011/15/2013-एच.आर.॥ राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा.सं.6/2/2013-सीएस-1 (एस)-II के अनुसरण में तथा डीओपीटी के ऊपर उल्लिखित का.जा.में निहित शर्तों के अध्यक्ष श्री शांतनु ब्रजवासी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 25.02.2014 (अपराह्न) से 4800/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे बैंड-2 (रु.9300-34800/-) में वर्ष 2009 की प्रवर सूची में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के नतीजों और किन्हीं भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य किसी आदेश के अधीन होगी:

- i. श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4135/2012, एम.ए.सं. 3477/2012.
- ii श्री एम.आर.मीना एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली के दायर ओ.ए.सं. 4082/2012, एम.ए.सं.3448/2012
- III. श्री शांति लाल बौरासी एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4141/2012.
- IV श्री सौरांशु सिन्हा एवं अन्य बनाम यूओपीआई एवं अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर ओ.ए.सं. 2735/2013.

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2014

सं.ए-32011/02/2014-मा.सं.॥ —राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-आई (डी) के अनुसरण में और डीओपीटी के उपर्युक्त का.जा. में निहित शर्तों के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार, उप सचिव को दिनांक 30.04.2014 (पूर्वाह्न) से प्रारंभ में एक वर्ष के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 8700/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे-बैंड-4 (रु.37,400-67,000/-) में तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं.32011/02/2014-मा.सं.-॥. राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के आदेश सं.3/1/2011- सीएस-आई(घ) के अनुसरण में तथा डीओपीटी के उपर्युक्त का.जा. में निहित शर्तों के अधीन श्री एस. आनंदन, उप सचिव को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 30.04.2014 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 8700/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे-बैंड-4(37,400-67,000/- रुपए) में तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2014

सं.ए-22011/09/2014-एच.आर.॥ —राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2013 के का.जा.सं.6/10/2013-सीएस-आई (एस) के अनुसरण में तथा डीओपीटी के ऊपर उल्लिखित का.जा.में निहित शर्तों के अध्यक्ष श्रीमती सविता दीक्षित को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 17.04.2014 (पूर्वाह्न) से और 30.6.2014 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, 4800/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे बैंड-2 (रु.9300-34800/-) में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 मई 2014

सं. ए-12025/07/2012-के.स्वा.सेवा.-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. सुश्रुता कथूरिया को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण विशेषज्ञ उप संवर्ग में परीवीक्षा पर दिनांक 14 सितंबर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-॥ (कनिष्ठ वेतनमान) (त्वचा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जून 2014

संख्या. ए. 12025/43/2013-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शिखा गुप्ता को 27.05.2013 के अपराह्न आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए 15600-39100/-) + रुपए 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. शिखा गुप्ता को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. शिखा गुप्ता अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 11 जून 2014

संख्या. ए. 12025/231/2006-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विवेक प्रकाश घाटे को दिनांक 19.02.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए) + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. विवेक प्रकाश घाटे को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. विवेक प्रकाश घाटे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 12 जून 2014

संख्या. ए. 12025/214/2009-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुशील कुमार को दिनांक 02 जून, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600-39100/- रूपए) + ग्रेड वेतन 5400/- रूपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सुशील कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2014

सं. 5-9/2014-सीएयू—राष्ट्रपति जी, श्री अरविंद कुमार को रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (उत्तर प्रदेश) में कुलपति के रूप में दिनांक 09.05.2014 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

विजय सिंह, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2014

सं. ईआरबी-1/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.05.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:--

i)	श्री राजेन्द्र चौधरी,	प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर
ii)	श्रीमती सुमन बाला भाटिया,	प्रधान निजी सचिव
iii)	श्री एस.पी. जोशी,	प्रोग्रामर
iv)	श्री सुभाष चंद्र,	अनुभाग अधिकारी
v)	श्री प्रेम चन्द,	अनुभाग अधिकारी

पी. सी. गजभिये
सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2014

सं. ई(जी.पी.) 2012/3/7—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के भंडार विभाग के निम्नलिखित 51 ग्रुप-बी अधिकारियों को जो निम्न दर्शाए गए रेलों से हैं, की 12.03.2014 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई. आर. एस. एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2012-2013 के लिए पैल

क्र.सं.	नाम/ सर्व श्री	रेलवे
1.	सोम दत्त	म.रे.
2.	कमलेश्वर सिंघा	द.पू.रे.
3.	संजय कुमार जैन	प.रे.
4.	श्रीमती वी.के.पी. नायर	प.रे.
5.	पृथ्वी सिंह	उ.प.रे.

6.	अरूप घोष	द.पू.रे.	
7.	सुजीत साहा	पू.रे.	
8.	बिप्लव कार	द.पू.रे.	
9.	प्रदीप कुमार	उ.रे.	
10.	रविन्दर सिंह	डी.एम.डब्ल्यू.	
11.	बी. बन्द्योपाध्याय	द.पू.रे.	
12.	एस.के. बवेजा	उ.प.रे.	
13.	अरूप डे	द.पू.म.रे.	
14.	मनीष दत्ता	द.पू.रे.	
15.	प्रवीर मजुमदार	पू.रे.	
16.	ए.के. पाण्डे	पू.रे.	
17.	नरेश कुमार	उ.रे.	
18.	अचिन्त्या कुमार रॉय	द.पू.रे.	
19.	मीना जे.पी. (अ.ज.जा.)	प.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
20.	जे. सीधानन्दन (अ.जा.)	आई.सी.एफ.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
21.	एस.के. दास (अ.जा.)	द.पू.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
22.	चौ. रामाचन्द्र राव (अ.ज.जा.)	द.म.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
23.	एच.बी. अरून (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
24.	कुलदीप सिंह (अ.जा.)	उ.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2013-14 के लिए पैनल

क्र.सं.	नाम/ सर्व श्री	रेलवे	
1.	के.आर. बेसरा (अ.ज.जा.)	द.पू. रे.	
2.	जी. रामाकृष्णन	द.रे.	
3.	तपन मोहापात्रा	पू.तट रे.	
4.	एम.के. दीवान	पू.रे.	
5.	श्रीमती मीना सुधा डी (अ.ज.जा.)	प.रे.	
6.	नीरज श्रीवास्तव	पूर्व.रे.	
7.	ए.के. जायसवाल	डि.रे.का.	
8.	अब्दुल राशिद	म.रे.	
9.	के.के. दास	पू.रे.	
10.	मो. इरशाद गौरी	प.रे.	
11.	ललित कुमार	प.रे.	
12.	मल्होत्रा डी.टी.	प.रे.	
13.	इंद्रदेव गंग्राडे	प.रे.	
14.	ए.के. सिंह	पू.रे.	
15.	वी.के. मणि	पू.रे.	
16.	सी. डब्ल्यू. चार्ल्स थॉमस	स.डि.का.	
17.	ललित ओरांव (अ.ज.जा.)	द.पू.रे.	
18.	मो. अबु जफर	द.पू.रे.	
19.	अनिल तलरेजा	म.रे.	
20.	मीना जी.के. (अ.ज.जा.)	प.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
21.	आर.के. मीना (अ.ज.जा.)	उ.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
22.	रामवीर सिंह (अ.जा.)	उ.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
23.	हरी राम (अ.जा.)	उ.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
24.	राम मेहर (अ.जा.)	उ.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 25. | वी.एस. सागर (अ.जा.) | पूर्वो.रे (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 26. | नरेन्द्रन के.वी. (अ.जा.) | प.रे. (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 27. | हबीब अहमद | रे.डि.का. |

सुमन शर्मा
निदेशक, स्था. (राज. पदो.)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जून 2014

सं. 6/2/2012-प्रशा.।—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्रीमति हरजिंदर कौर तथा श्रीमति राजेश गुप्ता, अनुभाग अधिकारी दिनांक 31 मई, 2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए ।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 26th May 2014

No. A-22012/1/2014-PME--Consequent upon acceptance of his resignation, Shri T.K.A. Nair, IAS (PB : 1963) (Retired), appointed as Adviser to the Prime Minister, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 26th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A-22012/1/2014-PME--Consequent upon acceptance of his resignation, Shri Pulok Chatterji, IAS (UP : 74) (Retired), appointed as Principal Secretary to the Prime Minister on co-terminous basis, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 26th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A-22012/1/2014-PME--Consequent upon acceptance of his resignation, Shri Shivshankar Menon, IFS (Retired), appointed as National Security Adviser, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 26th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A-22017/2/2014-PME--Consequent upon acceptance of his resignation, Shri Rakesh Sood, IFS (Retired), appointed as Special Envoy in the Prime Minister's Office, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 26th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A-22017/2/2014-PME--Consequent upon acceptance of his resignation, Shri Pankaj Pachauri appointed as Communications Adviser on the personal staff of Prime Minister on co-terminus basis, has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 26th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 27th May 2014

No. A-22012/1/2014-PME--Consequent upon his appointment as Joint Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation, Shri Shakil P. Ahamed, IAS (AM : 1995) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 27th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 28th May 2014

No. A-22012/1/2014-PME--The President is pleased to appoint Shri Nripendra Misra, IAS (Retd) (UP : 67), as Principal Secretary to the Prime Minister with effect from the forenoon of 28th May, 2014 on approved standard terms and conditions. His appointment will be co-terminus with the term of the Prime Minister or till further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 30th May 2014

No. A-22012/1/2014-PME--The President is pleased to appoint Shri Ajit Doval, IPS (Retd), as National Security Adviser with effect from the forenoon of 30th May, 2014 on approved standard terms and conditions. His appointment will be co-terminus with the term of the Prime Minister or till further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 3rd June 2014

No. A-22012/1/2014-PME--The President is pleased to appoint Shri A. K. Sharma, IAS (GJ : 88), as Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 03rd June, 2014 on normal central deputation terms or till further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 16th June 2014

No. 3/1(1)2014-I--The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :--

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Date of appointment
1	Balagopal S.K	28.10.2013
2	Chohan Neha Sanjay	28.10.2013
3	Geethu Lisba Jacob	28.10.2013
4	Geethu N.	28.10.2013
5	Jana Ravi Kiran	28.10.2013
6	Krishna G. Namboothiri	28.10.2013
7	Niladri Maitra	28.10.2013
8	Archana Ravindran	28.10.2013
9	Anjali Lal	28.10.2013
10	Abhishek J.K	28.10.2013
11	Atal Krushna Khatua	28.10.2013
12	Samel Kunal Parag	28.10.2013
13	Arjun G. Namboodiri	20.11.2013
14	Nelson Davies Pallipuram	25.11.2013
15	Azadhussain J.	25.11.2013
16	S. Mohanraj	25.11.2013
17	Girish N. Namboodiri	27.11.2013
18	Ajay Kumar N.B.	09.12.2013

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)2014-I--The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :--

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Date of appointment
1	Dasari Raviteja	28.10.2013
2	Akash Yalagach	28.10.2013
3	A. Rajil Ramesh	28.10.2013
4	Rajesh Sankar K.	28.10.2013
5	P. Aziya Nizin	28.10.2013
6	Jayant Kumar	28.10.2013
7	Jayakrishnan T.S.	28.10.2013
8	Madhav Nakani	28.10.2013

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

 No. 3/1(1)/2014-I--The President is pleased to appoint on promotion Smt. Sandhya R. S., Senior Assistant as Purchase & Stores Officer in VSSC, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 09.01.2013 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

 No. 3/1(2)/2014-I--The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Praveen Kumar B., Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 27.12.2013.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

 No. 3/1(2)/2014-I--The President is pleased to accept the technical resignation from service of Shri Rahul Mishra, Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 29.11.2013.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

 No. 3/1(2)/2014-I--Consequent on attaining the age of superannuation Sri C. N. Mukundan, Senior Head, Accounts/IFA (G), in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge with effect from the afternoon of 30.11.2013.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

 No. 3/1(2)/2014-I--Consequent on attaining the age of superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :--

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Post	Date of Relief
1.	P.O. Balachandran	Scientist/Engineer-H	30.11.2013
2.	J. Joseph	Scientist/Engineer-G	30.11.2013
3.	Chandran K.M.	Scientist/Engineer-SF	30.11.2013

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Post	Date of Relief
4.	B. Kusumakumari	Scientist/Engineer-SF	30.11.2013
5.	Dr. O. Vijayan	Scientist/Engineer-SF	30.11.2013
6.	Kuriala N.K.	Scientist/Engineer-SE	30.11.2013
7.	Ravi K.R.	Scientist/Engineer-SE	30.11.2013
8.	R. Vijayakumar	Scientist/Engineer-SD	31.10.2013
9.	A.D. Elsy Baby	Scientist/Engineer-SD	31.12.2013
10.	K.V. Asokan	Scientist/Engineer-SD	31.10.2013

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(2)/2014-I--Consequent on attaining the age of superannuation Sri G. Suresh Babu, Administrative Officer, in the Vikram Sarabhai Space Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge with effect from the afternoon of 30.11.2013.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 30th May 2014

No. A-19/G-A/109--Shri Bharat Bhushan Garg, IRS:2004, Joint Director, whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide the Central Board of Direct Taxes Letter No. A-29011/PF/04020/2012-AdVI, dated 24.07.2012, is hereby relieved from the post of Joint Director in the Secretariat of the Election Commission of India, with effect from 30.05.2014(A/N), to report to the new CCA i.e. UP (West), on his new posting vide Ref. No. A-12018/1/2012-Ad.VI, Dated 16.05.2014 of Central Board of Direct Taxes.

B. C. PATRA, Under Secy.

The 2nd June 2014

No. A-19/G-A/115--In pursuance of CBDT's order no 72/2014 issued vide No A-29011/PF/93076/2014-Ad.VI, dated 20.05.2014 and consequent upon having been relieved from the O/o the Principal Chief Commissioner of Income Tax order No 24/ GO 2014-15 issued vide No. P-328/Relieving/ Pr CCIT/ 2014-15/2253 dated 21.05.2014, Shri N.C.Swain, IRS (IT : 93076) is hereby appointed as Director in the Commission, in PB-4 [37,400—67,000/-] with corresponding Grade Pay of Rs. 8700/-, w.e.f. 21.05.2014 (F/N), on deputation basis for a period of three years up to 20.05.2017 or until further orders whichever is earlier.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 30th April 2014

No. A. 38012/3/2013-Admn.I(L.D.)--On attaining the age of superannuation, Shri Vinod Kumar Airy, Principal Private Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2014.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

The 1st May 2014

No. A.12026/4/2006-Admn.I(LD)--In pursuance of Department of Personnel and Training's Order bearing file No. 3/1/2011-CSI(D) dated 30th April, 2014, Shri Jose Thomas, Deputy Secretary in Selection Grade of the Central Secretariat Service in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is promoted to the post of Director of CSS in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400--67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Department on ad-hoc basis for a period of one year or until further orders, whichever is earlier with effect from the forenoon of 1st May, 2014 i.e. the date of assumption of charge, as per the terms and conditions laid down in the Order *ibid*.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th May 2014

No. A-12034/01/2013-Admn.IV(LA)—With the approval of Competent Authority, Shri Arun Kumar Nawani, Additional Private Secretary working in the personal section of the Hon'ble Minister for Law and Justice (Shri Kapil Sibal) stands relieved of his duties with effect from 26.05.2014 (A/N).

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th May 2014

No. I-11014/14/2013-IPS.IV--In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Government of Maharashtra and Tamil Nadu, the Central Government hereby transfers Shri G. Shashank Sai, IPS (MH : 2012) from Maharashtra to the IPS Cadre of Tamil Nadu on the grounds of his marriage with Ms Aarthi Manickavasagam, IAS (TN : 2012).

ARVIND GAUR, Under Secy.

The 9th June 2014

No. I-12015/01/2012-IPS.IV--In exercise of powers conferred by Sub-rule (1) of Rule-5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government allocates following cadre(s) to the candidate(s) allocated to the Indian Police Service on the basis of the results of the Civil Services Examination, 2012.

Sl. No	Name of IPS Probationer S/Shri	Rank	Home State	Cadre Allocated
1.	Ms D. Sudarvizhi	343	Tamil Nadu	Punjab

ARVIND GAUR, Under Secy.

New Delhi-1, the 20th May 2014

No. 24010/85/1999-IPS.II--The President is pleased to direct that Shri Vinode Thomas, a member of the Indian Police Service, borne on the Cadre of Kerala (KL : 1993) is deemed to have been resigned from the Indian Police Service with effect from 16.10.2006, in terms of Rule 7 (2) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

MOLOY SANYAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 28th May 2014

No. 14034/06/2011/-OL(Trg.)--The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri Santosh Kumar as Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home

Affairs in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 18th February, 2014.

SURAJ BHAN, Dir.

The 28th May 2014

No. 14034/06/2011/-OL(Trg.)--The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri Arvind Kumar as Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 7th April 2014.

SURAJ BHAN, Dir.

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th May 2014

No. A-32014/1/2014-Cadre (Ad. IV)--Consequent upon their inclusion in the Select Lists for the years 2009, 2010, 2011 on the basis of Seniority, in terms of Department of Personnel & Training's OM No. 6/2/2013 – CS.I (S), dated 25.9.13, the President is pleased to appoint the following officials as Section Officers (Group B Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions in the Pay Band 2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- for the Select List Years and with effect from the dates mentioned against their names :--

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt.)	Select List Year	Date of appointment
1.	D. K. Pandey	2009	Date of approval by the Departmental Promotion Committee i.e., 02.01.14
2.	Praveen Pal Singh	2009	
3.	Rishi Pal	2009	
4.	Anita Billung	2009	
5.	Usha Gill	2011	
6.	Sushila	2011	

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-32014/1/2014-Cadre (Ad. IV)--In terms of Department of Personnel & Training's OM No. 6/10/2013 – CS.I (S), dated 31.12.2013, the President is pleased to appoint the following officials on the basis of Seniority as Section Officers (Group B Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions in the Pay Band 2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against their names :--

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt.)	Date of appointment
1.	K. C. Beena Nair	04.03.2014
2.	Ravinder Kr. Sharma	04.03.2014
3.	P.S. Padma Kumaran Nair	04.03.2014
4.	Rajindra Prasad	04.03.2014
5.	Tapas Dey	04.03.2014

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt.)	Date of appointment
6.	Shashi Lekhra	30.04.2014
7.	D. D. Nimje	04.03.2014
8.	V. S. Bara	04.03.2014

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 5th June 2014

No. 14012/27/2013 - AIS-III--In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2010 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :--

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
1	VASIREDDI VIJAYA JYOTHSNA	KARNATAKA	30.08.2012
2	KANAGA VALLI M	KARNATAKA	30.08.2012
3	SUJEET KUMAR	GUJARAT	19.05.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 13th June 2014

No. 14015/15/2013-AIS (I)-A--In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Manipur containing the following names prepared on 13.12.2013 under Regulation 5(5) and approved on 15.04.2014, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Manipur Segment of Joint Manipur-Tripura cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012 :--

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12. 2012)

Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Smt. Th. Chitra Devi	09.03.1973
2.	Smt. Haobam Rosita	10.03.1973

2. The recommendations of the Selection Committee are subject to the outcome of Writ Appeal No. 494/2002 arising out of Civil Rule No. 201/1997 filed by Sh. M Lakshmikumar Singh & ors before the Hon'ble Gauhati Court.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/15/2013-AIS (I)-B--In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Manipur to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the

State Government for the Select List of 2012, on probation until further orders and to allocate them to the Manipur-Tripura Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :--

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12. 2012)

Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri)
1.	Smt. Th. Chitra Devi
2.	Smt. Haobam Rosita

2. The recommendations of the Selection Committee are subject to the outcome of Writ Appeal No. 494/2002 arising out of Civil Rule No. 201/1997 filed by Sh. M Lakshmikumar Singh & ors before the Hon'ble Gauhati Court.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 28th May 2013

No. DIII/460/CF-66/2013--The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Somsak Triamjangarun as Consul General of Thailand in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Somsak Triamjangarun comprises the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu with the seat in Chennai.

SANJEEV KHANDURI, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 4th June 2014

No. 08/25/2014-DRT--The Central Government is pleased to appoint Shri D. Mahadevan to the post of Assistant Registrar in Debts Recovery Tribunal, Madurai on deputation basis, in the Pay Band 3 of ₹ 15,600—39100/- + Grade Pay of ₹ 6,600/ for a period mentioned against his name or until further orders, whichever is earlier :--

Sl. No.	Name of the officer Shri	Post	Posted in DRT	Period of deputation	
				From (dd/mm/yy)	To (dd/mm/yy)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D. Mahadevan	Assistant Registrar	DRT, Madurai	09.10.2013 (FN)	08.10.16 (AN)

RAJIV SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 9th June 2014

No. 7/8/2013-DRT--In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri R Ravindra Bose as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Chennai, for a period of five years with effect from 6.6.2014 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 12th May 2014

No. A-12026/2/2013-Ad.I--The President is pleased to appoint Shri N. Radhakrishnan, a regular Deputy Secretary of Central Secretariat Service as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) on ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 30th April, 2014 for a

period of one year or until further orders, whichever is earlier. The ad-hoc promotion of Shri N. Radhakrishnan shall be governed in terms of DoP&T's Order No. 3/1/2011-CS.I(D) dated 30.04.2014.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 24th April 2014

No. PFG(410)/81-Ad.-II--Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their name.

Sl. No.	Name of the Officer (S/Sh.)	Designation & Office	W.E.F.
1.	B. N. Harish	Regional Director in O/o RD (SER), Hyderabad.	01.04.2014 (AN)
2.	Smt. Anita Klair	Deputy. Director in O/o Ministry of Corporate Affairs, New Delhi.	16.01.2014 (FN)
3.	Sanjay Kumar Verma	Asstt. Director in O/o Ministry of Corporate Affairs, New Delhi.	03.02.2014 (AN)
4.	Smt. Anshu Tandon	Asstt. Director in O/o Ministry of Corporate Affairs, New Delhi.	26.02.2014 (FN)

RAKESH KUMAR, Under Secy.

The 7th May 2014

No.A-32011/1/2014-Ad.II--The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale officers to Senior Time Scale of Indian Corporate Law Service (PB-3, Rs.15,600--39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on their promotion with effect from the date mentioned against their name :--

SL	Name and designation	Date of effect
1	Sh. Puneet Kumar Duggal, Deputy Director in MCA Hqrs	09.04.2014(F/N)
2	Sh. Sudhir Kapoor, Deputy Official Liquidator, O/o Official Liquidator, Delhi	09.04.2014(F/N)
3	Ms. Geetha Mahalakshmi K, Deputy Registrar of Companies, O/o Registrar of Companies, Bangalore	10.04.2014(F/N)

RAKESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 9th June 2014

No. 18011/12/2014-Salt--The President is pleased to permit Shri M.V. Sathyanarayana, Superintendent of Salt of the Indian Salt Services in the Office of the Salt Commissioner, Jaipur to retire voluntarily from Government Service with effect from the forenoon of 16.05.2014.

S. N. MISHRA, Under Secy.

New Delhi-110 107, the 10th June 2014

No. A-22012/2/2014-E.I--The President is pleased to appoint Ms. Anupama. P, a regular Private Secretary of Central Secretariat Stenographic Service (CSSS) in the cadre of Ministry of Home Affairs, as Principal Private Secretary on

regular basis in the Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry), on inclusion of her name in the Select List-2012 of Principal Private Secretary grade of CSSS (Pay Band PB-3-Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/-), with effect from the forenoon of 22nd May, 2014, until further orders.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 2nd May 2014

No. A-23011/15/2013-HR-II--The President is pleased to appoint Shri Naresh Kumar as Section Officer in Select List of the Year 2010 in Pay Band-2 (Rs.9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 25.02.2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 6/2/2013-CS-I (S) – II dated 25.09.2013 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

2. The appointment shall be subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any competent court in any of the concerned matters:

- i. O.A. No. 4135/2012, M.A. No. 3477/2012, filed by Shri Rajeev R and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- ii. O.A. No. 4082/2012, M.A. No. 3448/2012, filed by Shri M. R. Meena and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iii. O.A. No. 4141/2012, filed by Shri Shanti Lal Bourasi and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iv. WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha and Ors Vs. UOPI and Ors. in the High Court of Delhi

YASHPAL ARORA. Under Secy.

No. A-23011/15/2013-HR-II. The President is pleased to appoint Shri P. K. Jain as Section Officer in Select List of the Year 2010 in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 25.02.2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 6/2/2013-CS-I (S) – II dated 25.09.2013 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

2. The appointment shall be subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any competent court in any of the concerned matters:

- v. O.A. No. 4135/2012, M.A. No. 3477/2012, filed by Shri Rajeev R and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- vi. O.A. No. 4082/2012, M.A. No. 3448/2012, filed by Shri M. R. Meena and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- vii. O.A. No. 4141/2012, filed by Shri Shanti Lal Bourasi and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- viii. WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha and Ors Vs. UOPI and Ors. in the High Court of Delhi

YASHPAL ARORA. Under Secy.

No. A-23011/15/2013-HR-II--The President is pleased to appoint Shri M. Tripathi as Section Officer in Select List of the Year 2009 in Pay Band-2 (Rs.9,300-34800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 25.02.2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 6/2/2013-CS-I (S) – I dated 25.09.2013 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

2. The appointment shall be subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any competent court in any of the concerned matters :

- i. O.A. No. 4135/2012, M.A. No. 3477/2012, filed by Shri Rajeev R and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- ii. O.A. No. 4082/2012, M.A. No. 3448/2012, filed by Shri M. R. Meena and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iii. O.A. No. 4141/2012, filed by Shri Shanti Lal Bourasi and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iv. WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha and Ors Vs. UOPI and Ors. in the High Court of Delhi

YASHPAL ARORA. Under Secy.

No. A-23011/15/2013-HR-II--The President is pleased to appoint Shri Santanu Brajabasi as Section Officer in Select List of the Year 2009 in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 25.02.2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 6/2/2013-CS-I (S) – I dated 25.09.2013 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

2. The appointment shall be subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any competent court in any of the concerned matters:

- i. O.A. No. 4135/2012, M.A. No. 3477/2012, filed by Shri Rajeev R and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- ii. O.A. No. 4082/2012, M.A. No. 3448/2012, filed by Shri M. R. Meena and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iii. O.A. No. 4141/2012, filed by Shri Shanti Lal Bourasi and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iv. WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha and Ors Vs. UOPI and Ors. in the High Court of Delhi

YASHPAL ARORA, Under Secy.

The 5th May 2014

No. A-32011/02/2014-HR-II.--The President is pleased to appoint Shri Rajiva Kumar, Deputy Secretary as Director on ad-hoc basis in Pay Band-4 (Rs.37,400--67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 30.04.2014 (F/N) initially for one year or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of the DoPT's Order No. 3/1/2011-CS-I (D) dated 30.04.2014 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

No. A-32011/02/2014-HR-II.--The President is pleased to appoint Shri S. Anandan, Deputy Secretary as Director on ad-hoc basis in Pay Band-4 (Rs. 37,400--67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 30.04.2014 (F/N) initially for one year or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of the DoPT's Order No. 3/1/2011-CS-I (D) dated 30.04.2014 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

The 9th May 2014

No. A-22011/09/2014-HR-II.--The President is pleased to appoint Smt. Savita Dixit as Section Officer on ad-hoc basis in Pay Band-2 (Rs. 9,300--34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 17.04.2014 (F/N) and upto 30.06.2014 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier, in pursuance of the DoPT's Order No. 6/10/2013-CS-I (S) dated 31.12.2013 and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 15th May 2014

No. A.12025/07/2012-CHS.IV--On the recommendation of the Union Public Service Commission, the president is pleased to appoint Dr. Sushruta Kathuria to the post of Specialist Grade-II (Dermatology) in the Non-Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Services on probation with effect from forenoon of the 14th September, 2012 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 011, the 10th June 2014

No. A.12025/43/2013-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shikha Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs.5,400/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of the 27.05.2013 until

further orders. Dr. Shikha Gupta is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. Dr. Shikha Gupta shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 11th June 2014

No. A.12025/231/2006-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vivek Prakash Ghate to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/-] + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 19.02.2007 until further orders. Dr. Vivek Prakash Ghate is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Nagpur. Dr. Vivek Prakash Ghate shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 12th June 2014

No. A.12025/214/2009-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sushil Kumar in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 2nd June, 2010 until further orders. Dr. Sushil Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, the 27th May 2014

No. 5-9/2014-CAU—The President is pleased to appoint Dr. Arvind Kumar as Vice Chancellor, Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi (Uttar Pradesh) w.e.f. 09.05.2014 (forenoon) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

VIJAY SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 3rd June 2014

No. ERB-I/2007/10/4--The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.05.2014 :--

- | | | |
|------|--------------------------|------------------------------|
| i) | Shri Rajender Choudhary, | Principal Staff Officer. |
| ii) | Smt. Suman Bala Bhatia, | Principal Private Secretary. |
| iii) | Shri S.P.Joshi, | Programmer. |
| iv) | Shri Subhash Chander, | Section Officer. |
| v) | Shri Prem Chand, | Section Officer. |

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

New Delhi, the 20th May 2014

No. E(GP)2012/3/7--The President is pleased to appoint the under mentioned 51 Group 'B' officers of Stores Department of Indian Railways belonging to the Railways as mentioned against each, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 12.03.2014.

PANEL FOR 2012-13

Sl. No.	Name	Railway	
1	Som Dutt	CR	
2	Kamaleswar Singha	SER	
3	Sanjay Kumar Jain	WR	
4	Smt.V. K. P.Nair	WR	
5	Prithvi Singh	NWR	
6	Arup Ghosh	SER	
7	Sujit Saha	ER	
8	Biplab Kar	SER	
9	Pradeep Kumar	NR	
10	Ravinder Singh	DMW	
11	B. Bandyopadhyay	SER	
12	S. K. Baweja	NWR	
13	Arup Dey	SECR	
14	Manish Datta	SER	
15	Prabir Majumdar	ER	
16	A. K. Pandey	ER	
17	Naresh Kumar	NR	
18	Achintya Kr. Roy	SER	
19	Meena J. P.(ST)	WR	Promoted against ST vacancy
20	J.Sidhanandan (SC)	ICF	Promoted against SC vacancy
21	S. K. Das (SC)	SER	Promoted against SC vacancy
22	Ch. Ramachandra Rao (ST)	SCR	Promoted against ST vacancy
23	H. B. Arun (SC)	CR	Promoted against SC vacancy
24	Kuldeep Singh (SC)	NR	Promoted against SC vacancy

PANEL FOR 2013-14

Sl. No.	Name	Railway	
1	K. R. Besra (ST)	SER	
2	G. Ramakrsihnan	SR	
3	Tapan Mohapatra	ECOR	
4	M. K. Dewan	ER	
5	Smt. Meena Sudha D (ST)	WR	
6	Niraj Srivastava	NER	
7	A. K. Jaiswal	DLW	
8	Abdul Rashid	CR	
9	K. K. Das	ER	
10	Mohd. Irshad Ghori	WR	
11	Lalit Kumar	WR	

Sl. No.	Name	Railway
12	Malhotra D. T.	WR
13	Indradeo Gangrade	WR
14	A. K. Singh	ER
15	V. K. Mani	ER
16	C. W. Charles Thomas	ICF
17	Lalit Oraon (ST)	SER
18	Md. Abu Zafar	SER
19	Anil Talreja	CR
20	Meena G. K. (ST)	WR Promoted against ST vacancy
21	R. K. Meena (ST)	NR Promoted against ST vacancy
22	Ramvir Singh (SC)	NR Promoted against SC vacancy
23	Hari Ram (SC)	NR Promoted against SC vacancy
24	Ram Mehar (SC)	NR Promoted against SC vacancy
25	V. S. Sagar (SC)	NER Promoted against SC vacancy
26	Narendran K. V. (SC)	WR Promoted against SC vacancy
27	Habib Ahmed	RCF

SUMAN SHARMA, Dir., Estt.(GP)
(Railway Board)

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 9th June 2014

No. 6/2/2012-Admn.I--On attaining the age of superannuation, Smt. Harjinder Kaur and Smt. Rajesh Gupta, Section Officer of Ministry of New & Renewable Energy stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 31st May, 2014.

SURESH KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in